



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 97]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 15, 2001/माघ 26, 1922

No. 97]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2001/MAGHA 26, 1922

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

का.आ. 141(अ).—केन्द्र सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित ट्रेलरों के पंजीकरण हेतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है :

अनुसूची

- ट्रेलर की किस्म : स्वतंत्र ट्रेलर
- स्वामी : जे० एच० पराबिया प्रा० लि०, फरीदाबाद
- ट्रेलरों का वर्णन (सं० 1)

चैसी सं०	धुरियों की सं०	सं०, वर्णन, टायरों का आकार	माप (लंबाई × चौड़ाई)	खाली वजन (कि. ग्रा.)	प्रतिधुरी अधिकतम लदान भार (कि. ग्रा.)	भार/सकल (कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5	6	7
टीआरटी/एमटी 4/028	4	7.50×20, 12 प्लाई प्रत्येक धुरी में 8 (8×4 = 32 टायर)	9175 मिमी ×3000 मिमी	17,800	18,000	72,000

4. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है :—

- (i) इन ट्रेलरों का कभी कभार प्रचालन किया जाएगा।
- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहन को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी।
- (iii) लदे हुए वाहनों को इस राज्य में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और लोक निर्माण विभाग के निर्देशानुसार आवेदकों को नदी/नाला पार करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
- (iv) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए और बेहतर यह होगा कि लदे हुए वाहन के आगे और पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (v) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलरों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vi) ट्रेलर अलग अलग पंजीकृत किए जाएंगे न कि संयुक्त रूप से।
- (vii) सड़क पर ट्रेलर के आवागमन हेतु अधिकतम गति सीमा 10 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

5. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा विक्री दस्तावेज प्रस्तुत (चीजक, सभी करों के भुगतान का सबूत) करने के बाद ही ट्रेलर का पंजीकरण किया जाएगा।

[फा० सं० आर टी-11042/5/2000 एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2001

S.O. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval to the registration of following trailers with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto :

SCHEDULE

1.	Type of Trailer	—	Independent Trailer
2.	Owned by	—	J.H. Parabia Pvt. Ltd. Faridabad
3.	Description of Trailer (1 in No.)		

Chassis No.	No. of Axles	No., Description Size of Tyres	Measurements (Length×Width)	Unladen Weight (in Kgs.)	Maximum per Axle Load (in Kgs.)	Weight Gross/ Kgs.
TRT/MT 4/028	4	7.50×20, 12 Ply 8 in each axle (8×4=32 Tyres)	9175mm×3000mm	17,800	18,000	72,000

4. The above relaxation is subject to the condition that—

- (i) The operations of the trailer shall be done only sparingly.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities will be observed and permission of such authorities will be obtained everytime the vehicle is put on the roads.

- (iii) The loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in this State and applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/nallas as directed by the Public Works Department.
- (iv) The vehicle should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be proceeded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (v) Coupling of the trailer along the width of the road shall not be permitted.
- (vi) The trailer, shall be registered individually and not as a combination.
- (vii) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10 km/hour.

5. The Trailer shall be registered only subject to fulfillment of conditions laid down under Rule 47 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (Invoice, proof of payment of all taxes).

[F. No. RT-11042/5/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

